

# फ़ैक्ट शीट (तथ्य पत्र) 3 - तैयारी करें . कार्यवाही करें . जीवित बचें

संशोधित 01/10/2009



NSW RURAL FIRE SERVICE

तैयारी करें. कार्यवाही करें. जीवित बचें.

## तथ्य:

बुशफ़ायर (झाड़-झंखाड़ अग्नि) के खतरे से जूझने के लिये अपने आपको, अपने परिवार और अपने घर को तैयार करने की जिम्मेवारी आपकी है। जब बुशफ़ायर का खतरा उत्पन्न हो तो आपको अपने "बुशफ़ायर सर्वायवल प्लान" के अनुरूप निश्चयात्मक ढंग से कार्यवाही करने की आवश्यकता है। आपका जीवित बचा रह सकना आपकी तैयारियों और आपके द्वारा लिये गये निर्णयों पर निर्भर करता है।

## तैयारी करें

"बुशफ़ायर सर्वायवल प्लान" बनायें और उसके बारे में अपने परिवारजनों से विचार विमर्श करें। अपने आपको और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिये सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक यह होगा कि "क्या आप समय रहते छोड़ कर चले जायेंगे या टिके रह कर अपनी अच्छे रूप से तैयार संपत्ति की सुरक्षा करेंगे।" आप चाहे जो भी निर्णय करें, तैयारी ही जीवित बचे रहने की कुंजी है।

- अगर आप छोड़कर जा रहे हैं - कहां जाना है, वहां कैसे जाना है और क्या लेकर जाना है, इन सभी के लिये तैयारी करें
- अगर आप टिके रहेंगे तो आपकी एक योजना होनी चाहिये कि किस तरह से जीवित बचे रहेंगे और किस स्थल पर आप शरण लेंगे। जानकारी रखें कि किन साजो सामान की आवश्यकता होगी।
- "कन्टिनजेंसी प्लान" (आकस्मिक योजना) बनायें - यह जानकारी रखें कि आपकी सबसे नज़दीकी "नेबरहुड सेफ़र प्लेस"(नज़दीकी सुरक्षित स्थान) कहां पर है
- अपने "सर्वायवल प्लान" को लागू करने के लिये आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार होना आवश्यक है
- अपने घर और संपत्ति को "फ़ायर फ़्रंट" (अग्नि पंक्ति) को झेल जाने के लिये तैयार करें

## कार्यवाही करें

आग अचानक और बिना किसी चेतावनी हुए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं इसलिये आपको कोई चेतावनी मिले बिना कार्यवाही करने की तैयारी करनी चाहिये

- इंतजार और सोचने में समय नष्ट नहीं करें। अपनी तैयारियों को कार्यवाही में बदलें।
- अपने इलाके की "फ़ायर डेन्जर रेटिंग" (अग्नि खतरा मूल्यांक) के बारे में जानकार रहें।
- आग के चिन्हों, जैसे धुआं या ज्वाला, के प्रति चौकस रहें
- अगर आपको "बुशफ़ायर अलर्ट" (चेतावनी) मिलती है तो उस को गंभीरता से ले और तुरन्त कार्यवाही करें
- टेलिविजन, लोकल रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल फोन और पड़ोसियों के ज़रिये जानकारी बटोरें
- टिके रह कर बचाव करने का विचार तभी करें यदि आप और आपकी संपत्ति भलीभांति तैयार हैं

## जीवित बचें

बुशफ़ायर के दौरान आपकी और आपके परिवार की जिन्दगी आपकी सबसे अहम प्राथमिकता है। आग से हर दशा में दूर रहना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित विकल्प है, पर यह मान कर चलें कि अग्नियाँ इतनी तेज फैल सकती हैं कि हमेशा चेतावनी मिल पाना संभव नहीं होगा।

- अपने निकटतम "नेबरहुड सेफ़र प्लेस" (नज़दीकी सुरक्षित स्थान) या अन्य सुरक्षित स्थल, जो आपको अधिक सुरक्षा दे सकते हैं, की जानकारी रखें
- आग की चपेट में आना आपके जीवन के सबसे दर्दनाक अनुभवों में से एक होगा।

"कटैस्ट्रॉफ़िक" (विनाशकारी) "फ़ायर डेन्जर रेटिंग" के दिनों में पहले ही छोड़कर चले जाना आपके और आपके परिवार के जीवन की रक्षा को सुनिश्चित करने का सबसे सुरक्षित विकल्प है क्योंकि भलीभांति तैयार व निर्मित घर भी सुरक्षित नहीं होंगे। "इकस्ट्रीम" (चरम) "फ़ायर डेन्जर रेटिंग" के दिनों में पहले ही छोड़कर चले जाना हमेशा सबसे सुरक्षित विकल्प होगा।

**कार्यवाही करने में विफलता के परिणामस्वरूप आप या आपके परिवारजन मृत या घायल हो सकते हैं।**

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें: अपने स्थानीय "फ़ायर कन्ट्रोल सेन्टर" (अग्नि नियंत्रण केन्द्र) या



NSW RFS INFORMATION LINE  
**1800 NSW RFS**  
1 8 0 0 6 7 9 7 3 7

[www.rfs.nsw.gov.au](http://www.rfs.nsw.gov.au)

[www.fire.nsw.gov.au](http://www.fire.nsw.gov.au) ♦ [www.esa.act.gov.au](http://www.esa.act.gov.au)

A FIREWISE INITIATIVE

